

EB307/EF307/EL307**Roll No. :
(2x1)****2023 (Annual) द्वारा की प्रतीक्षित हिन्दी****LINEAR INTEGRATED CIRCUITS & DESIGN****नियमित समय : 3 घंटे****Time allowed : 3 Hours****[अधिकतम अंक : 70
Maximum Marks : 70]****नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिए।****Note : Question No. 1 is compulsory, answer any **FIVE** questions from the remaining.****(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।****Solve **all** parts of a question consecutively together.****(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिए।****Start each question on fresh page.****(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।****(Only English version is valid in case of difference in both the languages.)**

1. (i) MSI तथा VLSI से क्या तात्पर्य है ?
What is meant by MSI and VLSI ?
- (ii) संक्रियात्मक प्रवर्धक (OP-AMP) IC-741 का पिन-आरेख बनाइए।
Draw the pin-diagram of operational amplifier (OP-AMP) IC-741.
- (iii) कालक IC-555 के अनुप्रयोग लिखिए।
Write applications of timer IC-555.
- (iv) एक विभव नियामक के स्थाईकरण गुणकों को परिभाषित कीजिए।
Define the stabilization factors of a voltage regulator.
- (v) PLL कैसे काम करता है ?
How PLL (Phase Locked Loop) works ? (2x5)

2. निम्न को समझाइए :**Explain the following :****(i) अधिस्तराक्षी वृद्धि****Epitaxial Growth****(ii) मास्किंग****Masking****(iii) एचिंग****Etching****(4x3)**

3. (i) प्रयोगात्मक एवं आदर्श संक्रियात्मक प्रवर्धक के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए।
Compare the characteristics of practical and ideal operational amplifier.
- (ii) संक्रियात्मक प्रवर्धक द्वारा अवकलक को सचित्र समझाइए।
Explain the differentiator using operational amplifier (OP-AMP) with neat diagram. (6x2)
4. (i) कालक 555 प्रयुक्त कर द्विस्थितिक बहुकंपित्र (BMV) परिपथ की कार्यप्रणाली समझाइए।
Explain the working of Bistable Multivibrator (BMV) circuit using 555 timer.
- (ii) कालक 555 प्रयुक्त कर पी.पी.एम. (PPM) परिपथ की कार्यप्रणाली समझाइए।
Explain the working of PPM circuit using 555 timer. (6x2)
5. संक्रियात्मक प्रवर्धक का प्रयोग करते हुए निम्न परिपथों की कार्यप्रणाली स्वच्छ परिपथ आरेख द्वारा समझाइए :
Explain the working of following circuits using OP-AMP (operational amplifier) with neat circuit diagram :
- (i) शिखर संसूचक
Peak detector
- (ii) सेम्पल एवं होल्ड परिपथ
Sample and hold circuit (6x2)
6. (i) IC-78XX एवं IC-79XX का कार्यकारी आरेख बनाकर उनकी कार्यप्रणाली समझाइए।
Draw the functional diagram of IC-78XX and IC-79XX and explain their working.
- (ii) वोल्टेज नियामक हेतु शार्ट परिपथ एवं ओवरलोड सुरक्षा परिपथ को समझाइए।
Explain the short circuit and overload protection circuit for voltage regulator. (6x2)
7. (i) PLL की सहायता से आवृत्ति ट्रांसलेटर का उपयोग समझाइए।
Explain the application of PLL as a frequency translator.
- (ii) PLL को प्रयुक्त कर FM डीमोड्यूलेटर को समझाइए।
Explain FM demodulator using PLL. (6x2)
8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
Write short notes on any **two** of the following :
- (i) संक्रियात्मक प्रवर्धक प्रयुक्त सक्रिय फिल्टर
Active filters using OP-AMP
- (ii) समाकलित प्रतिरोध
Integrated Resistor
- (iii) द्वि-अंकीय निम्न आवृत्ति गणक
Two-digit low frequency counter (6x2)